



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 फाल्गुन 1939 (श0)  
(सं0 पटना 217) पटना, सोमवार, 12 मार्च 2018

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

आदेश

29 दिसम्बर 2017

सं० 2007—माँ सत्वाहिनी मंदिर, अम्बा, जिला— औरंगाबाद पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०—3522 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—2006, दिनांक 08/01/10 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यों की एक न्यास समिति का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था। उक्त न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

न्यास समिति के सचिव— श्री सिद्धेश्वर विद्यार्थी द्वारा न्यास का प्रगति प्रतिवेदन पर्षद को प्रेषित किया। न्यास समिति ने विगत पांच वर्षों में सराहनीय विकास कार्य किये हैं। पर्षद द्वारा उक्त न्यास स्थल की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि न्यास समिति का कार्यकाल अच्छा रहा है।

अतः पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—2006, दिनांक 08/01/10 द्वारा गठित समिति के कार्यों को देखते हुए, इस न्यास समिति का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए पुरानी कार्ययोजना में उल्लेखित शर्तों के साथ विस्तारित की जाती है।

आदेश से,  
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
प्रशासक।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+10 -डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>